

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 137] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 9, 1973/चैत्र 19, 1895

No. 137] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 9, 1973/CHAITRA 19, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 27th March, 1973

S. O. 203 (E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1270 (Eastern Edition)	301.75 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events (For release in Eastern States i. e. Assam, Bihar, Nagaland Orissa, West Bengal, Manipur, NEFA and Tripura).

[No. F. 28/4/73—FP App. 1770].

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1973

एस० ओ० 205 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1270 (पूर्वी संस्करण)	301.75 मीटर	फिल्म प्रभाग, 24- पडर रोड, बम्बई-26	भारत सरकार	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल पूर्वी प्रदेशों असम, बिहार, नागालैण्ड उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मनीपुर, नेफा और त्रिपुरा)

[संख्या फ० 28/4/73-एफ.पी-परिशिष्ट 1770]

S.O. 206(E) —In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966 the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	I.N.R.No 1270.	161.54 Metres	Films Division, Government of India-24, Peddar Road, Bombay-26.	Film dealing with news and current events.	
2.	I.N.R.No. 1270-A	291.38 Metres	Do.	Do.	Do.
3.	I.N.R. No. 1271	213.36 Metres	Do.	Do.	Do.
4.	I.N.R.No. 1272	206.95 Metres	Do.	Do.	Do.
5.	Drought in Maharashtra	289.56 Metres	Do.		'Educational'
6.	Miya Bibi Razi	135.33 Metres	M/S Triveni Structures	Bombay	Do
7.	Vigyan Mela	608.79	Educational Expansion officer	Allahabad	Do.

[No. F. 28/4/73-FP-App 1771]

एस. ओ. 206(अ)---भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1270	161.54 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पैडर रोड बम्बई-26	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।	
2	भारतीय समाचार समीक्षा 1270-ए	291.38 मीटर		तथैव	तथैव

1	2	3	4	5	6
3	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1271	213. 36 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-पडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म।
4	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1272	206. 95 मीटर	तथैव		तथैव
5	महाराष्ट्र में दुष्काल	289. 56 मीटर	तथैव		शिक्षा सम्बन्धी
6	मियां बीबी राजी	135. 33 मीटर	मैसर्स त्रिवेणी पिक्चर्स, बम्बई।		तथैव
7	विज्ञान मेला	608. 79 मीटर	शिक्षा प्रसार अधिकारी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश		तथैव

[संख्या फा. 28/4/73-एफ०पी०—परिशिष्ट 1771]

S.O. 207 (B).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First-Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film/films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

(1) Sub-Section 4 of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).

(2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act 1953 (Bombay Act, XVII of 1953).

(3) Sub-Section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act, XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	Mahitichetra No. 159	289.56 Metres	Directorate of Information Government Gujarat	Film dealing with news and current events for release in Gujarat Circuit only.	

[No. F. 28 /4/73 -73 FP. App. 1772].

एन० ओ० 207 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में

की गई फिल्म को उसके गुजरात भाषा रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.
- (3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17वां सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1.	महिती चित्र संख्या 159	289.56 मीटर	प्रचार निदेशक, गुजरात सरकार, गांधी नगर		समाचार और सामयिक घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)

[संख्या फा० 28/4/73-एफ पी-परिशिष्ट 1772]

S. O. 208(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule Annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S.No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1.	2	3	3	5	6
1. (Southern Edition)	I.N.R. No. 1271	304.80 Metres	Films Division Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26		Film dealing with news and current events. (For release in Southern State i.e. Andhra Pradesh, Kerala, Mysore, and Tamil Nadu.

[No. F. 28/4/73 —FP App. 1773]

एस०ओ० 208 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1271. (दक्षिणी संस्करण)	304.80 मीटर	फिल्म प्रभाग, भारत सरकार 24-पैडर रोड, बम्बई-26	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल दक्षिणी प्रांत) आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, तामिल नाडू में प्रदर्शित करने के लिये)।	

[सं० फा० 28/4/73-एफ०पी० परिशिष्ट 1773]

S. O. 209(E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Scheduled annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

S. No.	Title of the film.	Length 35mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1272 (Western Edition).	298.00 Metres	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events. (For release in Western States. i.e. Gujarat, Maharashtra, & Goa, Daman & Diu.

[No. F. 28/4/73—FP App. 1774.]

एस०ओ० 209(अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस.ओ. 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा संबंधी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1272. (पश्चिमी संस्करण)	298.00 मीटर	फिल्म प्रभाग, 24-पैडर रोड,	भारत सरकार, बम्बई-26.	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल गुजरात, महाराष्ट्र तथा गोआ, दमन और दीव, में प्रदर्शित करने के लिये)

[सं० फा० 28/4/73—एफ०पी०—परिशिष्ट 1774]

S. O. 210 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section (4) of the Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas [Regulation] Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

S. No.	Title of the film.	Length 35mm.	Name of the Applicant	Name of the Producer.	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news & Current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Maharashtra News No. 249. (February, 1973)	297.00	Directorate of Metres Publicity Govt. of Maharashtra, Film Centre 68—Tardeo Road Bombay—34.		Film dealing with news and current events (For release in Maharashtra Circuit only).
2.	Sulabh Sandhani	300.00 Metres	Do.		"Educational" (For Maharashtra Circuits only).

[No. F. 28/4/73 -FP ApP. 1775.]

HARJIT SINGH, Under Secy.

एस०प्रो० 210 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम-1953 (1953 का 11वां बम्बई अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्र. संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म को लम्बाई 35 मि०मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1	महाराष्ट्र समाचार संख्या 249 (फरवरी, 73)	297.00 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेन्टर 68-तारदेव रोड, बम्बई-34	महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेन्टर 68-तारदेव रोड, बम्बई-34	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सकिट के लिए)
2	सुलभ संघनी	300.00 मीटर	प्रचार निदेशक, महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेन्टर, 68 तारदेव रोड, बम्बई-34	महाराष्ट्र सरकार, फिल्म सेन्टर, 68 तारदेव रोड, बम्बई-34	शिक्षा सम्बन्धी (केवल महाराष्ट्र सकिट के लिए)

[संख्या फा० 28/4/73-एफ पी-परिशिष्ट 1775]

हरजीत सिंह, अव्वर सचिव ।